



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 48) पटना, सोमवार, 14 जनवरी 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2019

सं० 01/निगम-08-02/2017-467—पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण के निमित्त जनहित में सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ की 1.5 एकड़ भूमि भुगतान के आधार पर GAIL India को सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना के लिए रुपये 46,40,62,500.00 (छियालीस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रुपये) के भुगतान किये जाने के शर्त पर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

स्थानान्तरित की जाने वाली भूमि की कुल राशि 46,40,62,500.00 (छियालीस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रुपये) का भुगतान गेल इंडिया द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को भुगतान किया जाएगा। निगम को बैंक ड्राफ्ट/RTGS से राशि प्राप्त होने पर 1.5 एकड़ भूमि का दखल कब्जा GAIL को दिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 48-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>